



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 1981/पौष 11, 1902

No. 4]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 1981/PAUSA 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

प्रादेश

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1981

सा० का० नि० 5(अ).--राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 371-य के खण्ड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काइनों का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) प्रादेश, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रादेश करते हैं, अर्थात्:--

1. (1) इस प्रादेश का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काइनों का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) संशोधन प्रादेश, 1981 है।

(2) इस प्रादेश में यथा अन्यथा उल्लिखित के सिवाय, यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. आंध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काइनों का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) प्रादेश, 1975 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रादेश कहा गया है) पैरा 3 के उप पैरा (1) के साथ निम्नलिखित पशुनुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--

“परन्तु उक्त अध्याय के समाप्त हो जाने पर भी, राष्ट्रपति जब कभी वह ऐसा करना समीचीन समझे, प्रादेश द्वारा, राज्य सरकार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के वर्गों और उक्त अधीन सिविल पदों के वर्गों को राज्य के विभिन्न भागों की बाबत विभिन्न स्थानीय काइनों में संगठित करें।”

3. उक्त प्रादेश के पैरा 5 के उप पैरा (2) में,--

(क) खण्ड (ख) के अंत में “और” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) खण्ड (ग) के अंत में “और” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा; और

(ग) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्

“(घ) पारस्परिक अधार पर किसी स्थानीय काइर से किसी अन्य स्थानीय काइर को किसी व्यक्ति का स्थानान्तरण इस शर्त के अधीन रहने हुए कि इस प्रकार स्थानान्तरित व्यक्ति को पश्चात्पूर्वी काइर में ज्येष्ठता उसके उस काइर में स्थानान्तरण की तारीख के प्रतिनिर्देश से समनुवर्धित की जाएगी।”

4. उक्त प्रादेश के पैरा 6 में,--

(क) उप पैरा (2) के खण्ड (ii) में “और पुलिस निरीक्षकों” शब्दों के स्थान पर “पुलिस निरीक्षकों और माटर यान निरीक्षकों” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप पैरा (4) के खण्ड (i) में “मिडक और हैदराबाद जिले” शब्दों के स्थान पर “मिडक, रंगारेड्ड और हैदराबाद जिले” शब्द रखे जाएंगे और वे 15 अगस्त, 1978 से रखे गए समझे जाएंगे।

5. उक्त प्रादेश के पैरा 8 में,--

(क) उप पैरा (3) में “और पुलिस निरीक्षक” शब्दों के स्थान पर “पुलिस निरीक्षक और मोटरयान निरीक्षक” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-पैरा (5) के नीचे दी गई सारणी में, स्तंभ (1) में प्रविष्टि VI के सामने "हैदराबाद (हैदराबाद नगर को अवजित करते हुए)" शब्दों के स्थान पर "रंगा रेड्डि (ऐसे क्षेत्रों को अवजित करते हुए जो हैदराबाद नगर के भाग हैं)" शब्द रखे जाएंगे और वे 15 अगस्त, 1978 से रखे गए समझे जाएंगे।

6. उक्त आदेश के पैरा 9 के परन्तुक में,

"किसी अन्य स्थानीय काडर में" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति किसी अन्य स्थानीय काडर में या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के अधीन" शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त आदेश के पैरा 13 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"13.—कतिपय निवृत्तियों और प्रोत्तियों का अन्तिम होना—

यथास्थिति, इस आदेश या पैरा 3 के परन्तुक के अनुसरण में किए गए किसी आदेश के आरंभ के पश्चात् और इस आदेश या पैरा 3 के परन्तुक के अनुसरण में दिए गए किसी आदेश के उक्तवर्तों के अन्तर्गत किसी स्थानीय काडर का संगठन किए जाने के पूर्व किसी ऐसे पद पर, जिसका ऐसे काडर में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है, की गई कोई निवृत्ति या प्रोत्ति अन्तिम होगी और ऐसे संगठन के पश्चात् वारह मास का अवधि के भीतर इस आदेश के उपबंधों के अनुसार उसका पुनर्निर्माण और पुनर्गठन किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इन पैरा के प्रयोजनों के लिए कोई स्थानीय काडर पैरा 4 के अधीन उसे आदेशित व्यक्तियों से संगठित किया हुआ समझा जाएगा।"

8. उक्त आदेश की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "जोन I" के सामने की प्रविष्टि में "श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम जिले" शब्दों के स्थान पर "श्रीकाकुलम, विजयानगरम और विशाखापत्तनम जिले" शब्द रखे जाएंगे और वे 1 जून, 1979 से रखे गए समझे जाएंगे।

(ख) "जोन VI" के सामने की प्रविष्टि में "हैदराबाद" शब्द के पश्चात् "रंगा रेड्डि" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और वे 15 अगस्त, 1978 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

9. उक्त आदेश की तृतीय अनुसूची में,—

(क) क्रम सं० 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"17क	मोटारयान निरीक्षक	यथोक्त"

(ख) क्रम सं० 23 के सामने स्तंभ (2) में की प्रविष्टियों में, "राजपत्तित विद्यालय निरीक्षक" शब्दों के स्थान पर "उप शिक्षा अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) क्रम सं० 26 के सामने स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "प्राध्यापक, सरकारी शिक्षण महाविद्यालय और सरकारी व्यापक शिक्षण महाविद्यालय" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) क्रम सं० 27 के सामने, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "परिषद् शिक्षा अधिकारी" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) क्रम सं० 36 के सामने स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर "सहायक निदेशक, उद्योग जिसमें तकनीकी अधिकारी (ग्रामीण उद्योग परियोजना), योजना और सर्वेक्षण अधिकरण (ग्रामीण उद्योग परियोजना) और तकनीकी अधिकारी (5 लाख को काम कार्यक्रम) के पद भी सम्मिलित हैं," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) क्रम सं० 37, 38 और 39 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(छ) क्रम सं० 48 के सामने, स्तंभ 2 में की प्रविष्टि के स्थान पर "श्रम अधिकारी" प्रविष्टि रखी जाएगी।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पैराग्राफ 4(ख), 5(ख) और 8(ख) द्वारा किए गए संशोधन, 15 अगस्त, 1978 से हैदराबाद जिले के रंगा रेड्डि और हैदराबाद जिलों में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप हैं और इसलिए उक्त तारीख से पूर्व-व्यक्ति प्रभाव दिया जाना है। इसी प्रकार, पैराग्राफ 8(क) द्वारा किया गया संशोधन 1-6-1979 से विजयानगरम् जिला नामक नए जिले के निर्माण स्वरूप है, जिसका गठन श्रीकाकुलम जिले और विशाखापत्तनम जिले के क्षेत्रों से किया गया है और इसलिए इसे उक्त तारीख से पूर्वव्यक्ति प्रभाव दिया जाना है। प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वोक्त संशोधनों को पूर्वव्यक्ति प्रभाव से लागू किए जाने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राष्ट्रपति के आदेश द्वारा तथा उनके नाम से

[सं० एल० 21011/2/78-एस० आर०]

के० एन० भनोट, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 1st January, 1981

G.S.R. 5(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (1) and (2) of article 371D of the Constitution, the President hereby makes the following Order further to amend the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975, namely :—

1. (1) This Order may be called the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Amendment Order, 1981.

(2) Save as otherwise provided in this Order, it shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 3, to sub-paragraph (1), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that, notwithstanding the expiration of the said period, the President may by order, require the State Government, whenever he considers it expedient so to do, to organise any classes of posts in the civil services of, and classes of civil posts under, the State into different local cadres for different parts of the State."

3. In paragraph 5 of the said Order, in sub-paragraph (2)—

(a) the word "and" at the end of clause (b) shall be omitted;

(b) the word "and" shall be inserted at the end of clause (c) ; and

(c) after clause (c), the following clause shall be added, namely :—

"(d) the transfer of a person from one local cadre to another local cadre on a reciprocal basis, subject to the condition that the person so transferred shall be assigned seniority in the latter cadre with reference to the date of his transfer to that cadre."

4. In paragraph 6 of the said Order,—

(a) in clause (ii) of sub-paragraph (2), for the words "and Inspectors of Police", the words "Inspectors of Police and Motor Vehicles Inspectors" shall be substituted;

(b) in clause (i) of sub-paragraph (4), for the words "the districts of Medak and Hyderabad", the words

"the districts of Medak, Ranga Reddy and Hyderabad" shall be substituted, and shall be deemed to have been substituted with effect from the 15th day of August, 1978.

5. In paragraph 8 of the said Order,—

(a) in sub-paragraph (3), for the words "and Inspectors of Police" the words "Inspectors of Police and Motor Vehicles Inspectors" shall be substituted;

(b) in the Table appearing below sub-paragraph (5), in column 1, against entry VI, for the words "Districts of Hyderabad (excluding city of Hyderabad)" the words "Districts of Ranga Reddy (excluding such areas as form part of the city of Hyderabad)" shall be substituted, and shall be deemed to have been substituted with effect from the 15th day of August, 1978.

6. In paragraph 9 of the said Order, in the proviso, for the words "in any other local cadre", the words "in any other local cadre or under any other local authority, as the case may be" shall be substituted.

7. For paragraph 13 of the said Order, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"13. Certain appointments and promotions to be provisional.—Any appointment or promotion made after the commencement of this Order or any order made in pursuance of the proviso to paragraph 3, as the case may be, and before any local cadre has been organised under the provisions of this Order or any Order made in pursuance of the proviso to paragraph 3, to any post which is required to be included in such cadre shall be provisional and shall, within a period of twelve months after such organisation, be reviewed and readjusted in accordance with the provisions of this Order.

Explanation.—For the purposes of this paragraph, any local cadre shall be deemed to be organised, with the allotment of persons to it under paragraph 4."

8. In the Second Schedule to the said Order,—

(a) in the entry against "Zone I", for the words "Srikakulam and Visakhapatnam Districts", the words "Srikakulam, Vizianagaram and Visakhapatnam Districts", shall be substituted, and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st day of June, 1979.

(b) in the entry against "Zone VI", after the word "Hyderabad" the words "Ranga Reddy" shall be

inserted, and shall be deemed to have been inserted with effect from the 15th day of August, 1978.

9. In the Third Schedule to the said Order,—

(a) after serial No. 17 and entries relating thereto the following serial No. and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)
"17-A. Motor Vehicles Inspectors		—Do—"

(b) in the entries against serial No. 23, in column (2), for the words "Gazetted Inspectors of Schools", the words "Deputy Educational Officers" shall be substituted;

(c) for the entry against serial No. 26, in column (2), the entry "Lecturers, Government Colleges of Education and Government Colleges of Comprehensive Education" shall be substituted;

(d) for the entry against serial No. 27, in column (2), the entry "Parishad Educational Officers" shall be substituted;

(e) for the entry against serial No. 36, in column (2), the entry "Assistant Directors of Industries, including the posts of Technical Officers (Rural Industries Project), Planning-cum-Survey Officers (RIP) and Technical Officers, (Half a Million Jobs Programmes)" shall be substituted;

(f) serial Nos. 37, 38 and 39 and the entries relating thereto shall be omitted;

(g) for the entry against serial No. 48, in column (2), the entry "Labour Officers" shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The amendments made by paragraphs 4(b), 5(b) and 8(b) are as a consequence of the reconstitution of Hyderabad District into Ranga Reddy and Hyderabad Districts with effect from the 15th August, 1978 and hence are sought to be given retrospective effect from that date. Similarly the amendment made by paragraph 8(a) follows the formation of a new District by name Vizianagaram District out of the territories comprised in Srikakulam District and Visakhapatnam District with effect from 1-6-1979 and hence is sought to be given retrospective effect from that date. It is certified that the interests of no one would be prejudicially affected by reason of giving retrospective operation to the aforesaid amendments.

By Order and in the name of the President

[No. S-21011/2/78-SR]
K. N. BHANOT, Jt. Secy.

